



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1461]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2007/अग्रहायण 7, 1929

No. 1461]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2007

का.आ. 1993(अ).—केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

प्रस्तावित संशोधन :

“जोन-‘डी’ (नई दिल्ली) में 1.70 हैक्टे क्षेत्र, जो उत्तर में नाले से, दक्षिण में सफदरजंग अस्पताल स्टाफ क्वार्टरों से, पूर्व में 24 मी. मार्गाधिकार सड़क से और पश्चिम में सरोजिनी नगर से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को ‘मनोरंजात्मक’ (जिला पार्क) से ‘आवासीय’ (छात्रावास/स्टाफ-क्वार्टरों) में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।”

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, छठा तल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. एफ. 16(1) 89-एमपी]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th November, 2007

S.O. 1993(E).—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send objection or suggestion in writing to the Principal Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, ‘B’ Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023 with a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

Proposed Modification :

“The land use of an area measuring 1.70 ha. in Zone ‘D’ (New Delhi) bounded by Nallah in the North, Safdarjung Hospital Staff quarters in the South, 24 m R/W Road in the East and Sarojini Nagar in the West is proposed to be changed from ‘Recreational’ (District Park) to ‘Residential’ (Students Hostel/Staff Quarters).”

The plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Joint Director (MP) 6th floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[F. No. F. 16(1)89-MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.